CIN: L02710CT1989PLC010052 GST - 22AAACN0407F1ZA



Village & Post-Dagori, Tahsil-Belha, (Distt) Bilaspur 495 224 (C.G.) Mob. 9109107310

Email: novaironsteel@gmail.com

#### SPEED POST / BY HAND/EMAIL

Ref. No.: NISL/SE/2024-25

Dated: 28/08/2024

The Secretary Bombay Stock Exchange Limited Phiroz Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai 400001

Subject: Publication of Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure

Ref: Regulation 47(d) of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir.

It is informed that Pursuant to Regulation 47(d) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice for holding 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure, has been published in 'Financial Express' an English National Daily, 'Jansatta', a Hindi National Daily and 'Samvet Shikhar', a regional daily on 28/08/2024. Copies of said published notice are enclosed for your record. This is for your information.

Thanking you

Yours faithfully

For Nova Iron and Steel Limited

Dheeraj Kumar (Company Secretary)

Encl: a/a

### न्यूज ब्रीफ

#### साई मंदिर में जन्माष्टमी पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़



दुर्ग। सिविल लाइन कसारीडीह स्थित प्रसिद्ध श्री साई बाबा मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालु श्री कृष्ण जी के भजनों पर नाच गांकर अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते रहे। रात 12 बजे कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर पटाखे फोड़ कर ख़ुशियां मनाई गई। जन्मोत्सव उपरांत श्री कष्ण जी की महाआरती कर श्रद्धालुओं को माखन मिश्री पंजरी व पल का महाप्रसादी वितरण किया गया। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए श्री साई बाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यह सिल्सिला देर रात जन्म उत्सव तक जारी रहा। इस अवसर पर श्री साई मंदिर समिति के सचिव धनेंद्र सिंह चंदेल, शिवाकांत तिवारी, सजीत गुप्ता, अजय सुरपाम, संतोष खिरोडकर, नारायणदत्त तिवारी, श्रीधर भजने. मरलीधर राऊत, अरविंद लोखंडे, प्रशांत राऊत. पंडित कैलाशचंद्र तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में महिला व परुष श्रद्धाल मौजद रहे।

# प्रदेश के निर्माण में सभी समाजों की भागीदारी हो : विधायक चंद्राकर

#### यादव समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है समाज के लोग गौरवशाली परंपरा को आज भी संजोए हुए हैं

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। दुर्ग ग्रामीण विधान क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों ग्राम उतई कोसरिया समाज. रिसाली दशहरा मैदान, नव युग गणेश उत्सव समिति, रुआबांधा राधा कष्ण मन्दिर में आयोजित श्रीकष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुआ और भगवान् श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा अर्चना किया और आशीर्वाद प्राप्त कर क्षेत्रवासियों के सुख शांति और खशहाली की कामना किया।

इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने समाज के सदस्यों को जनमाष्ट्रमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण यादव समाज के आराध्य हैं। समाज द्वारा आज श्रीकृष्ण जनमाष्टमी के अवसर पर सुंदर शोभायात्रा का

आयोजन किया गया है। भगवान कष्ण के विभिन्न रूपों में हम दर्शन करते हैं। उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। छत्तीसगढ में हमारा उद्देश्य सभी समाजों को बढ़ावा देना है। प्रदेश के निर्माण में सभी समाजों की भागीदारी हो। इस अवसर पर प्रमुख रूप से समाज से यादव समाज अध्यक्ष हरिश यादव, उपाध्यक्ष तेजराम यादव संरक्षक अश्वनी देवांगन, सचिव भूषण यादव हेमंत यादव, वेदराम यादव, अंजोर यादव तेजराम यादव ,अजय, संजय लिकेश, मुकेश, दयालु, संतोषी, सारिका, गंगा नंदू रोशन, टीक्, इन्द्रमानी संजय, शत्रुहन आशीष, धनश्याम, रूपेश, खेलुं

यादव,भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री रोहित साहू महामंत्री सोनू राजपूत रूपेश पारख, नरेन्द्र, साह्यनीलम गढे , माधो साह खुबी राम साह दुर्गा सेन, करण,सेन, सोहन रिगरी, चिंदू सिन्हा विमला कामडे, लता सोनवानी, संगीता रजक, सीतल, चंदू देवांगन, सरोज साहू, सतीश चंद्राकर, हुबलाल चंद्राकर, कुन्ती साह,पापा लाल रिगरी, मोहन साह भगवती विश्वकर्मा, राम प्रसाद यादव दुर्गा प्रसाद, भगवती विश्वकर्मा, दानेश्वरी देशमुख, भीमचंद सिन्हा लक्ष्मीनारायण साहू, ओ. पी.चंद्राकर तुलूराम साहू कांति साहू केशव साहू

न्यायालय नायब

तहसीलदार रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

//र्डश्तहार//

1.牙.赤./202408114500023/ 3干6/2023

एतद् ब्राग सर्वसाधारण को सूचित किया

जाता है कि आवेदक प्रकाश चंद साह पिता स्व.

फुलचंद साहू निवासी कर्मा विद्यालय के सामने दीक्षा नगर गुड़ियारी तहसील व जिला रायपुर द्वारा

इस न्यायालय में आवेदन पत्र पेश कर लेख किया

कि आवेरक के पिता फुलचंद साहू पिता

मधईराम साह एवं माता श्रीमती लालता साह पति

नव्हवन साहू एवं माता त्रामता लालता साहू पात श्री फुलचंद साहू के स्वामित्व एवं आधिपत्य में ग्राम गुड़ियारी, पहनं. 49, रा.नि.मं. रायपुर तहसील

व जिला रायपुरस्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 102/21 रुक्वा 0.0050 हे. भूमि धारित की

जाती है। उक्त भूमि के सहखातेदार श्री फुलचंद

साहू की मृत्यु दिनांक 28.06.2024 को हो चुका

है। जिनके विधिक वास्सिान आवेदक है इसके

अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है का उल्लेख किया जाकर उक्त वर्मित भूमि से मृतक भूमिस्वामी का

नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित कर विधिक पान की हैसियत से आवेदक अपना नाम

राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने हेतु शेष सहस्वातेदार का नाम यथावत रखे जाने हेतु आवेदक का निवेदन है। उक्त प्रकरण की सुनवाई

इस न्यायालय में दिनांक 16.09.2024 को होगी।

आपत्ति हो तो वे स्वंय या अपने अभिभाषक के

माध्यम से मय दस्तावेज अपनी लिखित दावा/आपित दिनांक 16.09.2024 को इस

यालय में पेश करें। नियत समयावधि के बाद

2024 रावपुर,दिनांक 23.08.2024 ग्राम-गुविवारी पहनं. 49,

सील व जिला रावपर

वैभव देवांगन, भूषण वर्मा, पीयूष गभीर भूपेंद्र गुरू परख,मोहन यादव, ममता चंद्राकर,, संगीत रजक सांसद प्रतिनिधी पप्पू दीपक चंद्राकर पार्षद सुनंदा चंद्राकर पार्षद मनीष यादव पार्षद धर्मेन्द्रभगत, अध्यक्ष शेखर यादव, उपाध्यक्ष तामेश विजेश कश्यप,सचिव, सुमित जितू भगत आदर्श सिंग गिरीश कोसले पूनम सपहा आंचल यादव, मंडल महामंत्री दशरथ साहू पार्षद मनीष यादव राकेश त्रिपाठी जग्गू यादव जीवन यादव पुनीत यादव उमेश यादव, राजकुमार जैन वेद प्रकाश साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। । गया। स्वागत भाषण में संस्था प्रमुख

## विधायक ने नवमीं कक्षा के छात्राओं को साइकिल वितरण की

समवेत शिखर संवाददाता दुर्ग। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु

करते हुए निःशुल्क सरस्वती देव साय के द्वारा शिक्षा को आगे साइकिल वितरण योजना के संबंध

बढाने . साथ ही 🖪 साथ प्रदेश की कन्याओं को साथ प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए सरस्वती 🎒 साइकिल योजना

के तहत स्कलों में छात्राओं को में बच्चो व पालको को जानकारी साइकिल का वितरण करवा रहे है । प्रदान की।

इसी ऋम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के द्वारा मंगलवार को सरस्वती सायकल योजना के तहत दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निकुम, दाऊ. कुर्मी. स्व . प्यारेलाल बेलचंदन शा. उच्चतर माध्यमिक को अपनी शुभकामनाएं देते हुए दुर्ग विद्यालय तिरगा में नवमी कक्षा के छात्राओं को सायकल वितरण किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। मुख्य अतिथि का शाला परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन किया

संस्था में दूर - दराज गांवों की बालिकाएं अध्ययन करने आती है उन्हें अब स्कुल आने - जाने में सहलियत होगी। अब उन्हें स्कल आने -जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बच्चो

ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने

कहा कि राज्य शासन की महती योजना अंतर्गत निःशल्क साइकिल वितरण से बालिकाएं अब अधिक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता. उत्साह के साथ स्कूल आना जाना

न्यायालय तहसीलदार रायपुर

मामले की श्रेणीः राजस्व

पंदर्भ:- जिला-**रायपर** तहसील-रा**यपर** प.ह.नं.-007:

टेमरी ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक

//ईश्तहार//

तहसील गयपुर के पहने 00078 के अंतर्गत ग्राम टेमरी के वर्तमान भूमिरवामें जगमोहन, राजु, जुनुलाल पिस. स्व. बन्नू यादक पिता, पिति- विश्वतामां क्षेत्रा बन्नू, मोम्म्यत, बूध्य पता-टेमरी, मन्मोहित यादक, पुष्पा यादक, प्रिथ्वलेश यादक, लीली यादक पिता/पति-स्व. प्रकाम यादक पता-टेमरी, श्रीमती जानकी यादक पिता/पति-स्व. प्रकाम यादक पता-पति-प्रसम्म कथापान वर्षाना प्रतान पति।

पिसरान कृपाराम, जुगाबाई बेवा स्व.पिता/पति-जगेश्वर यादव पता-सा.देह के द्वारा धारित भूमि

खसर कर्मक 243/2(0.2630), 435/-

छ ग, कुंदन यादव पिता/पति-स्व. राजु याद पता-ग्राम-टेमरी रायपुर छ ग, विश्वास पिता/पति-बन्नू पता- रायपुर छ ग, श्रीमतं जानकी यादव पिता/पति-स्व. प्रकाश याद्द

पता-रायपुर छ.ग., जगमोहन यादव पिता/पति-इंतवारी उर्फ बन्नु यादव पता-रायपुर छ.ग. मिथिलेश यादव पिता/पति-स्व. प्रकाश यादव

पता-रायपुर छ.ग., रुबी यादव पिता/पति-स्व राजू यादव पता-ग्राम-टेमरी रायपुर छ.ग. मनमोहित यादव पिता/पति-स्व प्रकाश यादव

सता-त्यप्य छ.म., के नाम पर पंजीयन/भीती होते हैं उपरांत नामांतरण/अभितंत्व दुरुक्ती/खात है ज्यारांत नामांतरण/अभितंत्व दुरुक्ती/खात है अपना के लिए फक्ला अभीक्ताव्यक्तातों के प्रावत्य में पंजीयन विचावधीन है। इस प्रकरण की मुन्दाई दिनांक 09/09/2024 को साम सुक्रव ना वेते स्थान नामांत्राव्य नामांत्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव्य नामांत्राव

कोई यात्रा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाश उपरां

रण की आगामी सूनवाई के पूर्व या सूनवाई के सम

यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लि

र्गित तिथि के उपरांत पास दावा-आंपल्ति पर को

अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्त्यार रं

RD 202324440725900080

## श्रीकृष्ण का बाल रूप अत्यंत प्रिय, नवयुवकों कों गीता अवश्य पढ़ना चाहिए: भूपेश बंधेल

कॉलोनी में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। मार्गदर्शन के लिए गीता है गीता को नवयुवकों को जरूर

सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्ण के तैल चित्र पर पुष्प हार पहना कर दीप प्रज्वलित किया इसके पश्चात आयोजन समिति न्यू चैलेंजर्स फप के कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल का पुष्प हार से स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने

कहा कि कृष्ण जन्माष्ट्रमी पर बच्चे नौजवान और माताएं उसमें कोरोना का भी रहा उसके बावजूद कुम्हारी में बहुत उत्साहित और प्रसन्न रहती है इसका कारण है भगवान श्री सारे विकास कार्य हुए मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पूरे कृष्ण के पास 16 कलाएं थी। कृष्ण का बाल रूप सबको प्रदेश की होती है बावजूद इसके कुम्हारी और पाटन में पसंद है माताएं अपने बच्चों को बिल्कुल कृष्ण बाल मेरा पूरा ध्यान था। वर्तमान सरकार कुम्हारी के लिए जो प्रिय है। बाल काल में कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में श्री कृष्णा को आमजनों की आवाज बुलंद कर रहे हैं सड़कों पर लड़ाई अनमोल ग्रंथ है। द्वापर में अर्ज़न के मार्गदर्शन के लिए श्री पड़ता जनता के लिए ही काम करना है।

कुम्हारी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पाटन विधायक भूपेश बधेल सोमवार को कुम्हारी के वार्ड कमांक 8 320 से लड़ रहा है जीवन में हर जगह संघर्ष है ऐसे में हमारे

पढ़ना चाहिए जीवन में अनेक बाधाएं आती है वह गीता की शिक्षा से पार होगा।उन्होंने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा की जब हमारी सरकार थीं तो 5 सालों में विकास कार्य में कोई कमी नहीं आई थी हालांकि 2 साल

गोपाल बनाकर रखती है श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत . पैसा आया था, टेंडर पास होने के बाद भी करीब 65 करोड रुपए वापस ले गए विपक्ष में रहकर हम आज मानने वाले है। उन्होंने गीता की रचना किया गीता सबसे भी हो रही है। चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में कोई फर्क नहीं

### बिजली की आंख मिचौली से अंडा सहित आसपास के ग्रामीण परेशान

अंडा (दुर्ग)। अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रदीप चंद्राकर ने बताया कि अंडा सहित आसपास के गांवों में बार बार बिजली गुल व बिजली की आँख मिचौली से ग्रामीण परेशान है। इस बरसात के मौसम में हवा तूफान व बारिश होने पर लाइट गुल हो तो बात समझ में आती है, लेकिन इन दिनों बिना हवा तुफान के भी लाइट कई घंटो तक बँद कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि दिन के साथ साथ रात में भी लाइट बंद होना आम बात हो गई है। बिजली विभाग की बिना कोई सुचना दिये आये दिन बिजली बंद कर दी जाती है। वही बार बार बिजली जाने से इलेक्टानिक उपकरण फ्रीज कुलर पंखा आदि भी खराब हो रहे है। बरसात के मौसम में जीव जन्तु से अंधेरे में डर वैसे ही बना रहता है कि कही काट न दे। साथ ही इन परेशानियों के अलावा बार बार लाइट बंद होने से आर्थिक क्षति भी उठानी पड रही है।

न्यायालय तहसीलदार रायपर. तहसील व

### जिला रायपुर (छ.ग.)

// इस्तहार// र्डकः/202408110200032/अ-6/ वर्ष 202 ग्राम-पंडरीतरई, पर्ह. 47

तहसील व जिला रायपुर छ.ग. एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेश्क बाबूलाल साहू पिता श्री पुनीत राम साहू निवासी-26/95, वर्मा निवास राजातालाब, पंडरी रायपुर द्वारा इस न्यायालय धारा -110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नामांतरण बाबत आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि ग्राम-पंडरीतराई, पहनं. 47 तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि शीट नंबर-21, प्लाट नंबर-3/126, रूकबा 757 वर्गफूट भीम को विक्रेता जयंत चौधरी पिता श्री चंडीचर चौधरी निवासी म.नं. एन. -15 श्रीराम नगर. फेस शंकर नगर, रायपुर छ.ग. से पंजीकृत विव विलेख दिनांक 21.06.2024 को क्रय किया है आवेदक ब्रांग पंजीकृत विक्रय विलेख के आध पर विक्रेता का नाम विलोपित कर अपना नाम दर किये जाने हेत निवेदन किया है।

अतस्व जिस किसी व्यक्ति को को आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के ाध्यम से अपनी लिखित आपित्तिदिनांव 10.09.2024 को इस न्यायालय में पेश करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति प कोई विचार नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर एवं न्यायालय की महर से जारी किया

मुहर रायपुर

#### न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ.ग.)

### // ईश्तहार//

एतद् ब्राग सर्वसाधारण को सूचित कि जाता है कि आवेदक कृष्णा कुमार सिंह आ अलवन सिंह, जाति गोड, निवासी ग्राम महगंवा तहसील सूरजपुर, जिल्रू सूरजपुर छ.ग. द्वारा ग्राम विशुनपुरखुर्द स्थित भूमि खसर नंबर 137 कबा 0.330 हे. भूमि को विकेता सोमानी पैकरा त्रीत सखाराम, जाति कंवर, निवासी ग्राम वेशुनपरख़र्द, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुज छ.ग. ब्राय मुख्तार आम प्रहिता छत्तर सिंह आ. मोहन सिंह, जाति गोड़ निवासीप्राम पर्ये, थाना व हसील सुरजपुर द्वारा दिनांक 19.01.2024 को जीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गय आवेदक द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधा नामांतरण बाबत आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस

को कोई आपील हो तो पेशी दिनांक 09.09.2024 को न्यायालय में स्वयं अथव अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर ावा आपित्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीम बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नर्ह

... दिनांक 24.09.2024 को मे ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमद्रा से जारी।

नायब तहसीलदा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) // ईश्तहार//

> राप्रकः.. अ/27 वर्ष 2023-24

ग्रम-कडार पहनं. 0 7 विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक शत्रुहन वर्मा पिता श्री कलेशर वर्मा निवासी ग्राम कडार के द्वार ग्राम कडार पहनं.07 रा.नि.मं. तरंगा तहसी भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा स्थि भमिस्वामी हक की खसरा नंबर 77/2, 746/2

47, 748, 750 रुकवा क्रमशः 0.0530. 0.1860, 0.0530, 0.0890, 0.0400 है कुल खसरा नंबर 05 योग रकबा 0.4210 है . नगान 4.14 रुपये राजस्व अभिलेख में विनोद पिता द्वारिका उर्फ धनसिंग वगैरह जाति कुर्मी के म पर शामिलात खाता में दर्ज है। उपरोक्त भूमि को आवेरिका एवं अनावेरकगण के मध्य 1/10 के अनुसार खाता विभाजन किये जानेके संबंध में हल्का पटवारी से फर्द सूची मय प्रस्तवित नक्शा लिया जाकर खाता पृथक-पृथक किये जानेहेतु ङ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 178 के तहत - 1 नेकल सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गय तथा सुनवाई हेतु दिनांक 09.09.24 स्थान हसील कार्यालय भारापार में 11.00 बजे नियत किया गया है. उक्त खाते में हित सकते वाले सभी कथा गया है, उक्त खात में हित रेखन वाल सेमा यक्तियों को एतर द्वारा सूचित किया जाता है कि ो निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी भेभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं

अपना आयमा, पार नगर ला सा उच्च उत्तर उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नहीं किय

थपनी आक्षेपों. यदि कोई हो तो पेश करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयकी मुहर से जारी किय

अतिरिक्त तहसीलदार (मुहर)

### न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

र्डश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम असोगा के प.इ.नं. 41, तहसील पाटन, जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक तरुण कुमार पिता दयाराम साह निवासी ग्राम असोगा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग द्वारा ग्राम असोगा प.ह.नं. 41, तहसील पाटन, जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंब 981/4 के स्थान पर 981/5 एवं 981/5 के स्थान पर 981/4 सुधार किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदक तरुण कुमार पिता दयाराम

साह निवासी ग्राम असोगा, तहसील पाटन बाहू । नवासा आम असामा, तहसाल पाटन, जिला तुर्गं छम, के हाम प्रस्तुत उपरोशतानुसार नवशा बटांकन किये जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्तिगत्संस्या की आपील हो तो असनी लिखित आपील फ्रक्तण में सुनवाही तिथि 13/09/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपित पर किसी प्रकार का विचा नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से

आज दिनांक 12.08.2024 को जारी किय जाता है।

मुहर

तहसीलदार पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) // सूचना-पत्र//

क्रमांक/क/वाचक/तह./2024 रायपुर, दिनांव 27.08.2024

निवासी-सदर बाजार, रायपुर छ.ग.

2024071102000130/अ-6/ वर्ष 2023-24 पक्षकार कांताबाई छत्तीसगढ़ शासन, प्राम-पंडरीतराई पहर्न. 62 तहसील व जिला रायपर में पक्ष समर्थन है। स्थित होने बाबत। विषयोंकित संबंध में लेख है कि आवेदि

मती कांता बाई पिता श्री रणधीर मेश्राम निवासी शिव मेरिर के पास, नई बस्ती राजातालाब, रायपुर छ.ग. द्वारा इस न्यायालय में धारा -110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नामांतरण बाब आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि ग्राम-ावर, पत्र पर कर राज्य किया है कि आमें डरीतराई, पहनं. 47, तहस्रील व जिला रायपुर में थत भूमि शीट नंबर-21, प्लाट नंबर-3/10/1 रकबा 500 वर्गफूट भूमि को विक्रेता श्रीमती बानो बाई पति श्री अन्दे अली निवासी -सदर बाजार, रायपुर छ.ग. से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.11.1980 के माध्यम से क्रय किया है। अत विदिका द्वारा पंजीकत विक्रय विलेख के आध

आपना नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रकरण में आवेदित भूमि के आप पितकर्ता/भूमिस्बामी है, इसलिए आपको सचित किया जाता है कि आप प्रकरण में नियत . युनवाई दिनांक 09.09.2024 को स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा प्रकरण में आपके विरुद्ध

न्या चार्चा जाने पायल अवस्था में जाने गायल अपना पायल आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किय



न्यायालय नायब तहसीलदार 02🗚 के न्यायालय में मामला क्रमांक :202408114500018

विषय:-अ-६ समले की श्रेणी : राजस्व सन् :- 2023-2024 गढियारी प ह नं. ०००,४९(१हे )) पक्षकरों का विवसणः आवेदक पक्षकर-कामना प्रसाद साहू पिता श्री राम निवसी सह संबद्धत स्टोर के प्रसंगोगांव गढिवारी तहसील व जिला संबर

अना देवठ पंथ कर-बीमती उभिंता देवी सोनी पति रच. रा देवा चंद्र सोनी निवसी

कियाना प्रतेष के सामने एडावीएमा महित्यारी तहसीन तातिना सावास

// र्डश्तहार //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कामता प्रसाद साहू पिता श्री ारण साहू निवासी साहू सायकल स्टोर के पास गोगांव गुढ़ियारी तहसील व जिला रायपुर द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि उनके द्वारा ग्राम गुड़ियारी, प.ह.नं. 49, गील व जिला रायपर में स्थित भूमि जिसका शीट नंबर 1 भूबंड कमांक 7/5 खसरा नंबर 516/1 का भाग रकबा 1200 वर्णपुट भूमि को विक्रेता श्रीमती उर्मिला देवी सोनी पति स्व. राजेश चंद्र सोनी नेवासी गोपाल किराना स्टोर के सामने पहाडीपरा गुढ़ियारी तहसील व जिला रायपुर से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28/05/2024 के माध्यम से क्रय कर वामिच्च एवं अधिपत्य प्राप्त किया है। का लेख करते हुए उक्त क्रय भूमि को पंजीकत विक्रय विलेख के आधार प आवेदक के नाम पर भूरिवामी हक में दर्ज किए जाने हेत् विदेक द्वारा निवेदन किया गया है।उक्त प्रकरण की गई में दिनांक 16/09/2024 को होगी।

अतएव उक्त भूमि को आवेदक के ना नामांतरण किये जाने से जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपीत हो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी लिखित आपत्ति **दिनांक 1**6/09/2024 को इस यायालय में प्रस्कतत कर सकते है। बाद मियॉद

नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमदा से आज **दिनांक 23/08/2024** को जारी किया नाता है।

नायब तहसीलदार मुहर रायपुर (छ.ग.)

आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया

(मुहर

कोटक महिंद्रा बँक लिमीटेड

मुंबई-400051, कार्पोरेट पहचान नं. एल 65110एमएच 1985 पीएलसी 038137 कॅपॉरेट ऑफिस कोटक इनफिनीटी, जोन-2, चौथा फ्लोर, बिल्डिंग न. 21, इनफिनीटी पार्क, उब्ल्यू, इड्वे के सामने, गोरेगांव, मृंबई-400097, शाखा कार्यानय: कोटक बैंक प्रथम तल, मृक प्रर

समवेत शिखर में तारीख 25/08/2024 को बिक्री सचना प्रकाशित किया गया थ

णकर्ता गणपति सेल्स कॉर्पोरेशन इनके निकामी तिथी 18/19/2024 यह गलत कार से प्रकाशित किया गया था कृपया निकामी तिथी 18/09/2024 यह पढ़ा जाना चाहिए। अन्य सभी नियम एवं शर्ते अप्रभावित रहेंगी . दिनांक : 28 / 08 / 2024 कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड के लिए

### मांग नोटिस

जबकि **एसंट रिकांस्ट्रक्यन कांपनी ( इंडिया) लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी ( नीये उल्लेखित ट्रस्टी के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए ) ( इसके बाद **'एआरसीआईएल'** के रूप में संवर्धत) को कंपनी अधिनियम. इंटरों क रूप में कांप करते हुए ) (इसके बार, "अगस्त्राजाङ्ग्यर के रूप में संदेशन) के कंपना अग्राज्य में 1956 के तहते जामिल किया गाव है और एक एस्टर रिक्त्यरण कंपनी के रूप में प्रचित्त निक्ता गाव है, भारतीय रिज्ञ बैंक के वित्तीय परिस्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्तिमाण और सुरक्षा वित्त प्रवर्तन अग्रिजेशमा, विद्या स्थान के स्थान में स्थान के स्थान किया के स्थान करते हुए सुख्या के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान करते हुए सुख्या वित्त (प्रचान) निमान 2002 के निमान के साथ वर्ग उप एक स्थान अग्रिजेश करते हुए सुख्या वित (प्रचान) निमान 2002 के निमान के साथ वर्ग उप अग्रिजेश के अग्रिजेश के स्थान वर्ग अग्रिजेश के साथ वर्ग उप स्थान के अग्रिजेश के साथ वर्ग उप स्थान करते हुए सुख्या वित (प्रचान) निमान 2002 के निमान के साथ वर्ग उप अग्राज्य अग्रिजेश के साथ वर्ग उप स्थान के अग्रिजेश के साथ वर्ग उप स्थान के स्थान वित्त स्थान के स्थान वित्त स्थान के स्थान वित्त स्थान के स्थान वित्त स्थान के अग्रिजेश के साथ वरित्त स्थान के स्थान वित्त स्थान वित्त स्थान वित्त स्थान के स्थान वित्त स्थान वित्त स्थान वित्त स्थान स्थान वित्त स्थान स्थान स्थान वित्त स्थान स्था की तारीख स् 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ को विभिन्न

कारप	गौ से नोटिस नहीं भेजा जा सका।		
सि. क्र.	लैन नंबर/मूल ऋणदाता का नाम/मांग नोटिस की तारीख/ट्रस्ट का नाम	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम	मांग नोटिस तिथि के अनुसार कुल बकाया राशि रुपए में
1.	तैन : 71170000008264 मूल ऋणवाता : वंधन वंक लिमिटेड डिमांड नोटिस की तिथि : 14-08-2024 ट्रस्ट का नामू : एआरसीआईएल	प्रेमानंद सुखदेव/ माया सुखदेव/ बीजेश गोहिल	13,41,412.39 रुपए 14 अगस्त-2024 तक

संपत्ति का विवरण : रहवासीग भूमि के वह सभी हिस्सा एवं खंड, परिमाप 1200 वर्ग फीट, मीजा-जुनवानी, खसरा नं. 1222/90, प. ह. नं. 15, प्लाट नं. 74, मांभीनगर, आरएनएम-दूर्ग 1, तहसील एवं जिला-दुर्ग, ख्लीसगढ़ और निम्नानुसार चिरे हुए हैं: पूर्व : 3 फीट सीवर लाइन. पश्चिम : 15 फीट सड़क, उत्तर : प्लाट नं. 75, विक्षण : प्लाट नं. 73.

इसलिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसरे उनसे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊप दर्शाई गई कल बकाया राशि का भगतान करने का आद्वान किया जाता है। संबंधित उधारकर्ता/सह दराइ एवं कुटा बकाया थांच का पुंतानी करने का आहान किया जाता हा स्वाचार उचारकता क्षेत्र के आमित का साथ कुल बकाया थांक का पूनान करने में विश्वन तरने पर उचारकता क्षेत्र के उपास्त्र विश्व किया के साथ कुल बकाया थांक का पूनान करने में विश्वन तरने पर उचार पर साथ कार्यक्ष करने के लिए चारा 13(4) के तहत कार्यक्ष करने के लिए चारा किया जाएगा, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिनियम और इसके तत्र कार पर पर नियमों के तहत निर्माणित अन्य तरीकों से मोटिस को सेका के लिए लिया परा आपको स्विचित किया जाता है कि उत्तत बंधक को सार्वजनिक नीलामी या बिक्की के माध्यम से हस्तातरण के लिए निर्मा सेंध के लिए नीटिस के प्रकारन की तारीच से पहले कियों भी समय प्रआपसीआईएल बाव किय गए लागत, शुल्क और व्यय के साथ पूरी देय राशि का भुगतान करने पर भुनाया जा सकता है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) में विस्तृत है।

क्याना वें कि सरफेसी अधिनियम के एस-13 (13) के अनुसार, आपको विकी, पट्टे या किसी अन्ट तरीके से सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने और/या उनके साथ व्यवहार करने से रोका जाता है। एसडी/- प्राधिकृत अधिकार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस : द रूँबी, 10वां फ्लोर, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम मुंबई-400028, टेलीफोन. : + 91 2266581300. www.arcil.co.in

**ब्रांच ऑफिस** : रूम नं. 1001, 10वां फ्लोर, सिगनेट टॉवर, डीएन 2, सेक्टर 5, साल्ट लेक, कोलका

700091, प. बंगाल, फोन नं: 033-48226608, CIN-U65999MH2002PLC134884

## तमेर पारा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 56 भीग लगाकर की महाआरती

दुर्ग। ताम्रकार महिला समाज द्वारा किल्ला मंदिर तमेर पारा दर्ग में कष्ण जन्माष्ट्रमी के अवसर पर 56 भोग लगा कर महाआरती किया गया। 56 भोग सभी महिलाएं अपने घरों से तैयार करके लाई थी। कान्हा जी का प्रिय भोग पंजरी, माखन, मिश्री, मिठाई, खीरा सभी प्रकार के फल और बनवट का लङ्डू काके पानी विशेष रूप से सम्मिलित था। जिसमे सरस्वती ताम्रकार. चंद्रकुमारी ताम्रकार, पद्मिनी ताम्रकार, मौसमी ताम्रकार, तप्ति ताम्रकार, सोनिया ताम्रकार, दिव्या ताम्रकार ,उषा ताम्रकार, सुजाता ताम्रकार, डालिमा ताम्रकार ,ज्योति ताम्रकार, नीता ताम्रकार आदि उपस्थित थे।

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि

कार्याः गांव-डागौरी, तहसील बेल्हा, जिला- बिलासपुर, (छनीसगढ़)-495224 -मेल: rai\_nisl2007@yahoo.com वेबसाइट: www.novaironsteel.com (CIN:L02710CT1989PLC010052) फोन: 07752-285206, 07752-285217

32वीं वार्षिक सामान्य बैठक, किताब बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिए सूचना रतरहारा सुचना दी जाती है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस की जूचना ये नेथारित अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए सेबी परिपत्र और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय हाय जार ानधारत जनुषार ज्याप को पूर्व करन करता द्वार स्था भरपेय और करपारट मागरात के स्वाचेय हात आते संविधित परित्रों और कंपनी अविधिन्यम, 2013 तथा उत्तर्भ अधीन वनाए पर नियम के लागू प्राच्यानी की अनुपालना में सोमबार, 23 सितंत्रर, 2024 को अपस्त्र ता,00 वने चेडियो कॉन्क्रॅसिंगर बीसी/अन्य आहिंडाो-विज्ञुजत मीन्य (ऑपसीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बार्मिक सितंद के साथ प्रवीक्ष्म की पूचना केशव उन्हों सहत्यों को हरीकृत्तिक मोह के माध्यम से भेजी जाएगी, जितका इंमेल पता कंपनीडियाजितयी/आरटीए के साथ पर्योक्षत है और कंपनी की वेबसाइट यानी

www.novaironsteel.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होर बैठक की सुचना शेयरधारकों को 28.08.2024 तक भेज दी जाएगी।

के पहिल्ला के प्राप्त के प्राप्त्य से पान लेने का निर्देश और ई-वोटिंग को प्रक्रिया जिसमें पीतिक रूप गेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपने देसेल पत्ने पंत्रीकृत नहीं किए हैं, कंपनी पेबस्वाइ www.novaironsbeel.com कंपरेस स्वाया नाम www.bseindia.com पर उपलब्ध एजीए नोटिस में दिए गए अनुसार अपने इंमेल पत्ने प्रवीकृत करा सकते हैं। जन सदस्यों ने अपना इंमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने इंमे

ाजन संदर्शन न अपना इंग्लंग पर्या चयुन्य तम् शाला है, उसस् अनुसंध क्रिया वाजा हा हा व अपना इंग्लं पर को ये पीकृत करने के लिए अनुसंध पर, न्या स्वातात पर, चेरा स्वापण और इंग्लंग परे और मोबाइल नंबर की स्कैन की हुई कांची के साथ rai\_nisi2007@gmail.com या admin@skylinerta.com पर एक इंग्लंग उनुसंध में बें। हिनांक 17.09.2024 (कट-ऑफ तारीख) पर शेषर रखने वाले सदस्य सेन्ट्रल हिपांकिटरी सर्विशेख (इंडिया) लिपिटेड (सीडीएसएन) हारा प्रवान किए गए रिपोर ई-बीटिंग के माध्यम से एजीएम के नीटिंस में निर्माति प्रतायों पर इलेक्ट्रीकि रूप से अपना बोट हालने के लिए पत्र हैं और इस तरह की चीटिंग

ह माध्यम से व्यापार का लेन-देन किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग २०.०९.२०२४ को सबह 10:c क्जे शुरू होगी और 22.09.2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद सीडीएर बंजी शुरू होगा और 22,09,2024 को शाम 5300 बंज धमात कथा जार उपक चार पाजराजरार कर आसम कर दी जाएगी। सम्बंद ई-बोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, एजीएम की सुगता देखे। ई-बोटिंग से संबंधित पूरुताल के मामले में, अकसर पूढे जाने वाले प्रकर्ता (एक्सक्यू) और ई-बोटिंग बुबर मैन्युवल www.evofinginida.com के एक्स प्रकार के अंतर के उपकार के आयोज कर के उपकार के आयोज उपकार के माने कि एक्स के अंतर के स्वित्र होता है। उसके प्रकार के अंतर के स्वत्र होता है। इसके स्वत्र होता होता है। इसके स्वत्र होता होता है। इसके स्वत्र होता है। इसके स्वत्र होता होता है। इसके स्वत्र होता है। इसके स्वत्य होता है। इसके स्वत्र होता है। इसके स्वत्य होता है। इसके स्वत्र होता है। इसके स्वत्र होता है। इसके स्वत्र होता है। इसके स्वत्य होता होता है। इसके स्वत्य होता है। इसके स्वत्य होता है। इसके स्वत्य होता है। इसके स्वत्य होता है।

हरारा राज्य भा आ प्रेमन्य प्रत्यक्ष, भार अस्तिक (राज्यहरायण, प्रदूता क्याण्याद्व, एत्यण जोशी स्त्रियः), एत्रिय आधार्यक्ष, एत्यण जोशी मार्ग, र परेल (पूर्व), मुंबई- 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@odslindia.com पर करें क्षथवा 022-22058542/43 पर कॉल करें।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण किताब एजीएम के उद्देश्य हेतु 17.09.2024 3.09.2024 तक (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कार्यालय नगर पंचायत थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

क्रमांक/498/राजस्व/नामां/न.पं.ख./2024

पश्चात आपत्ति करने पर विचार नहीं किया जावेगा।

#### तहसीलदार तहसील रायपुर (छ.ग.)

थानखम्हरिया, दिनांक 27/08/2024

स्रुचना एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि नगर पंचायत थानखम्हरिया में प्राप्त नामांतरण प्रकरण छ.ग. नगर पालिक ाधिनियम 1961 की धारा 150 के अंतर्गत प्रकरण में यदि कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर दिनांक

क्र.	भूमि स्वामी	भवन हस्तांतरित	वार्ड	भवन हस्तांतरण	आवेदन	स्थल का
	हस्तांतरणकर्ता का नाम	का नाम	죸.	का स्वरूप	दिनांक	स्वरूप
1	श्री मोरध्वज सिंह	श्री राजेज्ञ सिंघानिया	13	पंजीकृत बयनामा	10.02.2023	पक्का मकान
2	श्री जगदीश प्रसाद	श्री आनंद कुमार अग्रवाल	08	आबादी पट्टा	01.01.2024	पक्का मकान
3	श्री नाथूराम	श्री माधोराम साहू	08	मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा	16.02.2024	पक्का मकान
4	श्रीमती धापा बाई	श्री मनोज जोशी	04	न्यायालयीन आदेश	20.02.2024	पक्का मकान
5	श्री रामकुमार सिंह	श्री भानुप्रताप सिंह	03	पट्टा	26.02.2024	पक्का मकान
6	श्री भगत लाल	श्री चंदन देवांगन	10	पंजीकृत बयनामा	11.03.2024	पक्का मकान
7	श्री रामसिंग	श्री सुमित कुमार जैन,	04	पंजीकृत बयनामा	11.03.2024	खाली प्लाट
		श्री कुलेश्वर केशरवानी				
8	श्री चेतनलाल	श्री संदीप देवांगन	10	मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा	22.03.2024	पक्का मकान
9	श्री भगत सिंह	श्री कल्याण सिंह	02	पट्टा, भवन अनुज्ञा	30.04.2024	पक्का मकान
10	श्री अवतार सिंह	श्री बलबीर सिंह	05	पट्टा, सहमति पत्र	08.05.2024	पक्का मकान
11	श्री नारायण सिंह	श्रीमती नीतु भुवाल	05	पट्टा	14.05.2024	पक्का मकान
12	श्री बलबीर सिंह	श्री अवतार सिंह	05	सहमति पत्र	24.05.2024	पक्का मकान
13	श्री दिवाकर प्रसाद	श्री तुकाराम राजपूत	02	पंजीकृत बयनामा	30.05.2024	पक्का मकान
14	श्री मनहरण	श्री राजेन्द्र पटेल,	03	पंजीकृत वयनामा	13.06.2024	पक्का मकान
		श्री जलेश्वर पटेल				
15	श्री नूर अली	श्री दिनेश सोनकर,	05	पंजीकृत वयनामा	14.06.2024	पक्का मकान
		श्री विजय सोनकर				
16	श्री अशोक मित्तल	श्री अंकुश मित्तल	04	पंजीकृत दानपत्र	21.06.2024	पक्का मकान
17	श्री अंजनी कुमार	श्री सनत कुमार ठाकुर	12	पंजीकृत दानपत्र	04.07.2024	पक्का मकान
18	श्री राजेश कुमार	श्री उज्जवल कुमार	03	पट्टा, सहमति पत्र	18.07.2024	पक्का मकान
		सिंघानिया				
19	श्री सुरेश कुमार	श्री उज्जवल कुमार	03	पट्टा, सहमति पत्र	18.07.2024	पक्का मकान
		सिंघानिया				
20	श्री मोहनलाल केडिया	श्रीमती शारदा केडिया	02	मृत्यु प्रमाण पत्र, पर्टा	22.07.2024	पक्का मकान

27/09/2024 तक लिखित में आप साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अवि

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

28 अगस्त, 2024

# सीसीटीवी लगाने संबंधी अभिवेदन पर फैसला लें मुख्य सचिव : हाई कोर्ट

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य सचिव को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक अभय वर्मा के उस अभिवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा केवल उन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जहां से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता निर्वाचित हुए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष दायर विधायक की याचिका को दिल्ली के मुख्य सचिव को अभिवेदन के रूप में लेना चाहिए। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए वरिष्ठ अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर अभिवेदन पर फैसला करने को कहा।

# सेवा विभाग के वकील को प्रतिबंधित किया जाए : आतिशी

नई दिल्ली, २७ अगस्त (भाषा)।

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने निर्देश दिया है कि एक हलफनामे के जरिए अदालत को 'गलत' जानकारी देने को लेकर सेवा विभाग के सरकारी वकील को प्रतिबंधित किया जाए। एक आधिकारिक आदेश में, आतिशी ने कहा कि मुख्य सचिव को जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकारी वकील (दीवानी) संतोष कुमार त्रिपाठी सभी संबद्ध मामलों में दिल्ली सरकार का प्रातिनिधित्व करगे।

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.

ई-मेलः rai nisl2007@yahoo.com वेबसाइटः www.novaironsteel.com

(CIN:L02710CT1989PLC010052) फोन: 07752-285206, 07752-285217

32वीं वार्षिक सामान्य बैठक, किताब बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिए सुचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस की सूचना में

निर्धारित अनुसार व्यापार को परा करने के लिए सेबी परिपन्न और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के लाग पावधानों की

अनुपालना में सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को अपराह्न 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी,

जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत है और कंपनी की वेबसाइट यानी

www.novaironsteel.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने का निर्देश और ई-वोटिंग की प्रक्रिया जिसमें भौतिक रूप में

शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, कंपनी वेबसाइट

www.novaironsteel.com और शेयर बाजार यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध एजीएम

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल

पते को पंजीकृत करने के लिए अनुरोध पत्र, स्व सत्यापित पेन, शेयर प्रमाणपत्र और ईमेल पते और मोबाइल नंबर की स्कैन की हुई कॉपी के साथ rai nisl2007@gmail.com या

दिनांक 17.09.2024 (कट-ऑफ तारीख) पर शेयर रखने वाले सदस्य सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज

(इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के नोटिस

में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं और इस तरह की वोटिंग

के माध्यम से व्यापार का लेन-देन किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग 20.09.2024 को सुबह 10:00

बजे शुरू होगी और 22.09.2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, एजीएम की सुचना देखें। ई-वोटिंग से संबंधित पूछताछ के

मामले में, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मेन्युवल www.evotingin-

dia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर

ईमेल लिखें या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ़्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर

परेल (पूर्व), मुंबई- 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण किताब एजीएम के उद्देश्य हेतु 17.09.2024 रें

कृते नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड

(धीरज कुमार)

ऑडियो-विजअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बैठक की सचना शेयरधारकों को 28.08.2024 तक भेज दी जाएगी।

नोटिस में दिए गए अनुसार अपने ईमेल पते पजीकृत करा सकते है।

admin@skylinerta.com पर एक ईमेल अनुरोध भेजें।

करें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।

23.09.2024 तक (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

असक्षम कर दी जाएगी।

स्थानः नई दिल्ली

पंजी. कार्या: गांव-डागौरी, तहसील बेल्हा, जिला- बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)-495224

# दिल्ली सरकार व एलजी में फिर टकराव

# जानबूझकर चिकित्सकों के खाली पदों को नहीं भरा जा रहा : सौरभ

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 27 अगस्त।

उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दावा किया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डाक्टर और अन्य कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टाफ) की भारी कमी है और जानबुझकर इन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा शासित केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का मन करता है, केवल वहां पर नई भर्तियां और तबादले किए जा रहे हैं।

इस मामले में सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल से जवाब की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग से सचिवों के खिलाफ कारवाई की जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली के आशा किरण आश्रय केंद्र में 13 लोगों की मौत हो गई थी और छानबीन करने पर यह बात सामने आई थी, कि वहां डाक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारियों की भारी कमी थी। उन्होंने कहा कि तबादले और नियक्ति का अधिकार सीधे तौर पर उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है और इन मौतों के लिए उपराज्यपाल सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं।

सरकार और उपराज्यपाल का मन करता है, केवल वहां पर नई भर्तियां और तबादले किए जा रहे हैं।

*कहा,* जहां केंद्र

पदभार संभालने के बाद अब तक उपराज्यपाल को लगभग आधा दर्जन बार पत्र लिखकर अस्पतालों की जानकारी दी जा चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 30 फीसद पद खाली पडे हैं। इन पत्रों के जवाब में भी उपराज्यपाल का बड़ा ही अटपटा सा जवाब आया है कि हमारे पास लगभग 25-26 विशेषज्ञ की सूची आ गई है, परंतु हम इनकी तैनाती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है और पाधिकरण की बैठक नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से दिल्ली के सरकारी मेडिकल कालेज की घटना का उदाहरण देते हुए भारद्वाज ने कहा कि उस कालेज में दो छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण की कोशिश हुई। इस पर उपराज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब कालेज प्रशासन उन दोनों लड़कियों को भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का - झूठे मामले में फंसाने की साजिश कर रहा है।

# भारद्वाज जिन विभागों के प्रभारी हैं, उनमें वे विफल रहे : उपराज्यपाल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जिन विभागों के प्रभारी हैं, उसकी देखभाल करने में विफल रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि उन्हें रोजाना बिना किसी आधार के उपराज्यपाल पर आरोप लगाकर अपने मंत्री पद को बरकरार रखने का एक नया मौका मिल गया है। भारद्वाज के बयान के बाद देर रात उपराज्यपाल कार्यालय ने यह पलटवार किया है। यह बयान उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों में पदों के खाली होने के लिए

उपराज्यपाल पर दोषारोपण किया है। बयान में कहा गया है कि पिछले दशक में साल दर साल दिल्ली अपने निवासियों के लिए नरक बनती जा रही है। नालियां जाम हो गई हैं और बाढ़ वाले क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा उजाड़ हो गए हैं और नालों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि यह मंत्री की और उनके पूर्ववर्ती की अयोग्यता के कारण ही है कि अस्पतालों के लिए 38,000 पद सुजित करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, उन्हें भरना तो दूर की बात है। आप सरकार को पदों का सुजन शुरू होने से प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।



रोजाना बिना किसी आधार के आरोप लगाकर अपने मंत्री पद को बरकरार रखने का एक नया मौका मिल गया है।

*कहा,* उन्हें

पहले ही आवश्यक चिकित्सा पेशेवरों के पदों के पैमाने, विशेषज्ञता और मात्रा को परिभाषित करना होगा।

इसके अतिरिक्त इस तरह के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना तो दूर, बिस्तर खरीद, आपरेशन थिएटर के लिए आंतरिक डिजाइन को अंतिम रूप देने, उपकरण खरीदने आदि के लिए भी बजट आबंटित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। अस्पतालों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए, लेकिन उन्होंने मानव शक्ति या चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकताओं के लिए एक भी कागज आगे नहीं बढाया। इसी प्रकार उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाला शहरी विकास विभाग भी खस्ताहाल है। निगम और जल बोर्ड भी इसी विभाग के तहत आते हैं और यहां पर

# खबर कोना

## अभियंता ने १५वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता

नोएडा, २७ अगस्त।

सेक्टर-75 स्थित पंचशील प्रतिष्ठा सोसाइटी में एक व्यक्ति ने 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बताया गया कि जिस समय आत्महत्या की गई, उस समय फ्लैट में कोई और मौजूद नहीं था। मृतक की पहचान पंकज (36) के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ इसी सोसाइटी के टावर-8 में फ्लैट संख्या-1504 में रहता था। एसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। दोस्तों ने बताया कि वे काफी दिनों से तनाव में चल रहा था। उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। आत्महत्या करने से पहले उसने परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की थी।

## सहजीवन में रह रहे प्रेमी ने शादी से किया इनकार, प्रेमिका ने दी जान

जनसत्ता संवाददाता ग्रेटर नोएडा, २७ अगस्त।

थाना इकोटेक थ्री क्षेत्र में सहजीवन में रहने वाली एक युवती ने पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। बताया गया है कि शादी का दबाव बनाने पर सहजीवन में रह रहे प्रेमी और उसका परिवार युवती को परेशान कर रहा था। जिसके

बाद युवती ने यह कदम उठाया। इस मामले में

युवती के भाई पुलिस ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन पिछले चार साल से रविंद्र सहरावत नामक व्यक्ति के साथ सहजीवन में रह रही थी। आरोप है कि रविंद्र ने बहन से शादी का वादा किया था, लेकिन शादी नहीं कर रहा था। जब उसकी बहन ने शादी के लिए

दबाव बनाया, तो रविंद्र और उसके परिजनों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मंकीपाक्स को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने

कार्ययोजना जारी की जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 अगस्त।

सफदरजंग अस्पताल ने मंकीपाक्स के बढते खतरे को देखते हुए इससे निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल को नोडल अस्पताल के रूप में चिह्नित किया है। अस्पताल ने संदिग्धों के आने से लेकर उनके पृथकवास में रखने, जांच व उपचार और इस दौरान कर्मचारियों के बचाव को लेकर एक एसओपी जारी की है।

# धौला कुआं में सीवर जल निकासी की क्षमता बढ़ाएगा पीडब्लुडी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 27 अगस्त।

धौला कुआं को जलभराव की वजह से होने वाले जाम से बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्लुडी) जल निकासी की क्षमता को बढ़ाएगा। यह फैसला मंगलवार को पीडब्लुडी मंत्री आतिशी के औचक निरीक्षण के बाद लिया गया है। उनके साथ विभाग के अधिकारियों के साथ रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाईओवर व उसके आसपास की सड़कों का निरीक्षण किया। धौला कुआं में 23 अगस्त को हुई बारिश के कारण रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे जलजमाव की समस्या पैदा हुई थी।

आतिशी ने बताया कि धौला कुआं में जमीनी स्थिति का आकार कटोरानुमा है। इस वजह से हल्की ही बारिश का पानी जमा हो जाता है। यहां पर आसपास के मार्ग आने वाला पहुंच जाता है। और इस पानी को निकालने में विभाग को काफी समय लगता है। इसलिए यहां पर मौजूदा जल निकासी (ड्रेनेज सिस्टम) को प्रति घंटा 100 मिमी बरसात के अनुरूप अपग्रेड करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त यहां पर पर्याप्त संख्या में मोबाइल पंप तैनात किए जाएंगे और पानी निकालने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

उत्तर रेळवे

शुद्धिपत्र

उपर्युक्त निविदा के संदर्भ में, टेंडर खुलने की नियत तिथि 27.08.2024 से बदल कर 30.09.2024

कर दी गई है। सभी नियम और शर्ते अपरिवर्तित हैं। शुद्धिपत्र वेबसाइट www.ireps.gov.in पर

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

संदर्भः (i) निविदा सूबना। 05/2024-25 दिनांक 19.04.2024 (क्र. सं. 03)

(ii) निविदा सं 08245128 नियत तिथि 27.08.2024

प्रकाशित किया गया है।

A JM FINANCIAL

# नोएडा हवाई अड्डे के विस्तार की बाधा खत्म, 3286 हेक्टेयर जमीन खरीदने को मिली मंज्री

जनसत्ता संवाददाता ग्रेटर नोएडा, २७ अगस्त।

जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन खरीदने के नियमों की बाधा समाप्त हो गई है। यूपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिले में संचित क्षेत्र के लिए अधिकतम पांच फीसद जमीन अधिग्रहण की सीमा बढ़ा दी है। इस निर्णय के बाद नोएडा हवाई अड्डा, नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 4795 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत करने की अनुमति मिल गई है। इस निर्णय को जिले के लिए लागु किया गया है।

दरअसल, हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 3286 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें यीडा के मास्टर प्लान 2041 में प्रस्तावित सेक्टर 5. 6, 7, 8, 8ए, 10, 11 व 13 आदि के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। पांच फीसद सिंचित क्षेत्र से ज्यादा खरीद नहीं कर पाने के कारण हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास को जमीन अधिगृहीत करने में भी दिक्कत थी। हवाई अड्डा समेत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत के मद्देनजर जिले में अधिग्रहण की अधिकतम सीमा को बढाने की प्रदेश सरकार से मांग की गई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जमीन अधिग्रहण की अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

# भवन निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा यीडा

ग्रेटर नोएडा, २७ अगस्त (संवाददाता)।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब बकाएदार भवन निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यीडा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद ग्रेनो और यीडा, दोनों सीईओ को बकाएदार भवन निर्माताओं से बकाया वसूलने के कड़े निर्देश दिए गए। यह बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में फ्लैट खरीदारों के हितों

की रक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा फ्लैट खरीदारों के पंजीकरण का रहा क्योंकि नोएडा या ग्रेनो में फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों के सामने बड़ी समस्या यह आ रही है कि अब उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि अभी तक भवन निर्माताओं की तरफ से प्राधिकरण को सिर्फ 25 फीसद राशि को ही जमा किया गया है। यीडा उन भवन निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं किया है। बकाया जमा करने के बाद पंजीकरण के काम में तेजी आएगी।

# जेएनयू छात्र संघ की भूख हड़ताल खत्म

नई दिल्ली, 27 अगस्त (संवाददाता)।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की भूख हड़ताल 17वें दिन समाप्त हो गई। जेएनयूएसयु के मृताबिक उनकी जेएनयु प्रशासन से कई मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद भुख हडताल को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

सोमवार को जेएनयू प्रशासन द्वारा जेएनयूएसयू को उनकी कई प्रमख मांगों पर सहमति दी गई और मौखिक आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद भूख हड़ताल पर

विराम लगा दी गई। जेएनयूएसयू का कहना है कि यह कदम उन्होंने छात्रों के भुख हड़ताल के चलते बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर किया है। जेएनयू प्रवेश परीक्षा (जेएनयुईई) को बहाल करना छात्र संघ के मांग पत्र में एक प्रमुख एजंडा है। जिसे लेकर रेक्टर-प्रथम ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, कि अगले शैक्षणिक सत्र से जेएनयुईई के माध्यम से प्रवेश आयोजित की जाएगी। जबिक प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जेएनयूईई को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है और प्रदर्शनकारियों से बातचीत विद्यार्थी के तौर पर की जा रही है।

# पुलिस मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार, तीन को लगी गोली

जनसत्ता संवाददाता नोएडा. २७ अगस्त।

थाना फेस थ्री पुलिस और बदमाशों के बीच जांच अभियान के दौरान मृठभेड़ हो गई। तीन बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी। जबकि एक बदमाश को बाद में गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि चारों गिरोह बनाकर राह चलते लोगों से लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने धीरेंद्र उर्फ वीर सिंह उर्फ लम्बू, पुरुषोत्तम मौर्य, इमरान उर्फ चाचा को सेक्टर 63 स्थित गढी गोल चक्कर के पास खाली मैदान से गिरफ्तार किया है। वहीं, सुधीर गृप्ता को पर्थला गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, कि कुछ बदमाश गढ़ी गोल चक्कर के पास लूट की योजना बना रहे है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर तीनों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब तीनों को घर लिया, तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश के पैर में गोली लगी। तीनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इनके पास से तीन तमंचा और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी।

# 900 किमी पीछा कर अंतरराष्ट्रीय मोबाइल

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली. 27 अगस्त।

अपराध शाखा की टीम ने राजधानी दिल्ली से चुराए गए मोबाइलों को नेपाल में बेचने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। इनको पकड़ने के लिए टीम ने 900 किलोमीटर तक पीछा किया। उसके पास से 36 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी करीब 800 मोबाइल नेपाल भेज चका था। गिरफ्तार आरोपी सर्वपाल सिंह उर्फ गिन्नी हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। वह पहले से हत्या, झपटमारी, घरों में चोरी इत्यादि के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने इसके पास से एक महंगी

कार भी जब्त की है। शाखा के पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने मंगलवार को बताया कि पश्चिमी क्षेत्र के एसीपी अजय कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर संजय कुमार, सब इंस्पेक्टर अंशु कादयान की टीम ने करीब 900 किलोमीटर तक पीछा कर उसे नेपाल सीमा के पास से पकड़ा। वह गोरखपुर से नेपाल सीमा तक पहुंच गया था। पूछताछ में पता चला कि वह दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से चोरी का मोबाइल खरीदता था। फिर उसे आगे नेपाल में भेज देता था।

### दिनांक: 27.08.2024 सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्डिन" "CENTRAL" TO YOU SINCE <u>1911</u>

शाखा कार्यालयः आई.टी. पार्क (३५२४) उष्मानपुर, दिल्ली-११००५३ कब्जा स्वना (अचल सम्पत्ति के लिए) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.टी. पार्क (3524) शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 20/03/2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताः श्री मुदित गर्ग और एना गोयल को सूचना में अंकित राशि रु.2,04,320.61 (दो लाख चार हजार तीन सौ बीस रूपये एवं इकसठ पैसे मात्र) (जो 22 / 12 / 2023 को मुलधन एवं ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 22 / 12 / 2023 से आज तक ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। चुंकि ऋणकर्ता बैंक की सम्पूर्ण निर्धारित बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वार ऋणकर्ता, गारंटर तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **सम्पत्ति का कब्जा** 23 अगस्त 2024 को ले लिया है। ऋणकर्ता को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा साक्धान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.2,04,320.61 (दो लाख चार हजार तीन सौ बीस रूपये एवं इकसठ **पैसे गात्र)** (जो 22 / 12 / 2023 को मूलधन एवं ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही 22/12/2023 से ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ **सेंट्रल बैंक** ऑफ इंडिया, आई.टी. पार्क (3524) शाखा, दिल्ली के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री मुदित गर्ग पुत्र श्री गोपाल मोहन गर्ग, प्लॉट नम्बर सी-199, खसरा नम्बर 67, न्यू पंचवटी कॉलोनी, गाँव–मेहमा सराय उर्फ कोट, परगना लोनी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश). क्षेत्रफलः 98.032 वर्ग मीटर। जो धिरा है:-

उत्तरः भूमि दीगर **पूर्व**ः प्लॉट नं.सी—198 दक्षिणः सडक 20 फीट पश्चिमः प्लॉट नं.सी-200

तिथि: 23/08/2024 स्थानः गाजियाबाद

(प्राधिकत अधिकारी). सेंद्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: दिल्ली

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड कॉपोरेंट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287 पंजीकत कार्यालय: 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025

वेबसाइट : www.jmfinancialarc.com संपर्क ट्यक्ति: 1. निक्की कुमार- 9650606340, 2. रोहन सावत- 98331430133, 3. प्रशान्त मोंडे- 022 - 6224 1676,

**ई-नीलामी बिक्री सूचना-अनुगामी बिक्री** 

यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटेड के नाम से) ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण औ प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभृति हित के साथ जेएमएफएआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सुचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट∕सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है। कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण में. नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

ऋण काड/शाखा/ कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर	माग सूचना का तिथि तथा राशि	सम्पात का पता : अन्तिम	आराक्षत मूल्य	जमा धराहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि ( 24-08-2024 )
ऋण कोड संख्या 01400004828, नई दिल्ली (शाखा), सुनील जैन (कर्जदार), गुंजन जैन (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 21–01–2020, रु. 20,47,638/– (रुपए बीस लाख सेंतालीस हजार छह सौ अड़तीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः- ix/1891, प्लॉट नंबर-22, तीसरी मंजिल, गली नंबर- 3, खसरा नंबर- 1 8, 9,11 से 16 और 128, कैलाश नगर, गांधी नगर, शाहदरा दिल्ली नई दिल्ली- 110092 सीमाएं: उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः सड़क 15 फीट पूर्वः शेष भाग पश्चिमः दूसरों की संपत्ति	रु. 1344600/-, (रुपये तेरह लाख चौवालीस हजार छह सौ मात्र)	रु. 134460/-, (रुपये एक लाख चौंतीस हजार चार सौ साठ मात्र)	रु. 3544601/-, (रुपये पैंतीस लाख चौवालीस हजार छह सौ एक मात्र)
ऋण कोड सं. : 20000042745, नोएडा–सेक्टर 2 (शाखा), अखिलेश कुमार पाण्डे (कर्जदार), विभा पाण्डे (सह–कर्जदार)	दिनांकः 24-05-2021, रु. 1697972/-, (रुपये सोलह लाख सत्तानबे हजार नौ सौ बहत्तर मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः- प्लॉट नंबर 17, खसरा नंबर 76, सुदामा पुरी कॉलोनी, कृष्ण वाटिका गांव, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201206 में सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः पूर्व-अन्य संपत्ति दक्षिणः दक्षिण- अन्य संपत्ति पूर्वः दक्षिण-पूर्व-सड़क पश्चिमः सड़क	रु. 1329300/- (रुपये तेरह लाख उनतीस हजार तीन सौ मात्र)	रु. 132930/-, (रुपये एक लाख बत्तीस हजार नौ सौ तीस मात्र)	रु. 2615712/–, (रुपये छब्बीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ बारह मात्र)
ऋण कोड संख्या 26600000456, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), रीना सिंह (कर्जदार), तरूण कुमार (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 28-06-2021, रु. 14,44,797/- (रुपये चौदह लाख चवालीस हजार सात सौ सत्तानबे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः- प्लॉट नंबर- ए 48 ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर- 2 श्याम नगर, चंदर नगर गांव खुरेजी खास शाहदरा, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:-110051 सीमाएं: उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः सड़क पूर्वः संपत्ति का शेष भाग (प्लॉट) पश्चिमः संपत्ति का शेष भाग (प्लॉट)	रु. 1644300/- (रुपये सोलह लाख चौवालीस हजार तीन सौ मात्र)	रु. 164430/-, (रुपये एक लाख चौंसठ हजार चार सौ तीस मात्र)	रु. 1957528/-, (रुपये उन्नीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ अट्टाईस मात्र)
ऋण कोड सं. : 23400002896, आगरा (शाखा), सुधीर कुमार (कर्जदार), रमेश चन्द (सह–कर्जदार 1), सरिता देवी (सह–कर्जदार 2)	दिनांक : 18-12-2021, रु. 1976690/-, (रुपये उन्नीस लाख छिहत्तर हजार छ: सौ नब्बे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः- एमपीएल नंबर और 4/175 पार्ट और 4/176, एलआर रेजीडेंसी, नगला पृथ्वी नाथ आगरा उत्तर प्रदेश भारत 282010 की संपत्ति पर दूसरा तल फ्लैट नंबर 301, सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः आसमान के लिए खुला दक्षिणः आम रास्ता पूर्वः रास्ता, सीढ़ियां पश्चिमः अन्य घर	रु. 1167000/-, (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)	रु. 116700/-, (रुपये एक लाख सोलह हजार सात सौ मात्र)	रु. 2903636/-, (रुपये उनतीस लाख तीन हजार छह सौ छत्तीस मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 19-09-2024, प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 18-09-2024, शाम 4.00 बजे तक। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in पर दिए

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री नोटिस उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सुचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसुल किया जाएगा दिनांक: 28-08-2024 हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)

www.readwhere.com

( अरण्या-ट्रस्ट)

**FINANCIAL EXPRESS** 

**BRANCH OFFICE:** KITCHLU NAGAR, LUDHIANA

Date of

Amount as per

**Demand Notice** 

[RULE 8 (1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab & Sind Bank, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of power conferred under section 13(12) read with rule 9 of security interest (Enforcement) Rules, 2002. Issued a demand notice under Section 13(2) of SARFAESI Act 2002 calling upon the following Borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount mentioned in notice within 60 days of the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described here below in Exercise of the power conferred on him/ her under section 13(4) of said ACT read with rule 8 of the said rules

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property and dealing with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank, Kitchlu Nagar, Ludhiana, for an amount mentioned herein below, besides interest and other charges/expenses against calling account.

The Borrower(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).

Name of the	Description of	Date of	
Borrower(s)/Guarantor(s)	Immovable Property	Demand Notice	P

Borrowers: 1) Sh. Immovable Property/house 01.03.2024 22.08.2024 Rs. 12.85.583.62 Susheel Kumar Son of Sh. No.85, measuring 58.33 Sq. Yards, (Rs. Twelve Lakh Eighty Five Chander Pal House No.85, comprised in khasra No. 20//17, 13, 14, Thousand Five Hundred Eighty Street No.4, Gurdev Park khata No. 330/344, 332/346, as per Three & Paisa Sixty Two Only) Colony, Jassian Road, Near jamabandi for the year 2007-08, situated at Inclusive of interest upto Sabji Mandi, Ludhiana-Village Jassian, Hadbast No.101,abadi 29.02.2024 along with 141001. 2) Sh. Arvind known as Gurdev Park, Tehsil and District applicable future Interest w.e.f Kumar S/o Sh. Chander Ludhiana, as per sale deed duly registered 01.03.2024 Pal, (Co- Borrower) House with Sub-Registered with Sub-Registrar, Ludhiana at Wasika/ Document No. No.85, Street No.4, Gurdev 2019-20/101/1/11618 dated 22/11/2019. Bounded as: East: Street 15',

Park Colony, Jassian Road, West: Neighbour 15', North: Neighbour 35', South: Neighbour belonging Near Sabji Mandi, to Smt. Vidya Wati wife of Sh. Chander Pal. Ludhiana-141001. 3) Smt. Vidya Wati W/o Sh. Chander Pal, (Co- Borrower/Mortgagor), House No. 85,

Street No. 4, Gurdev Park Colony, Jassian Road, Near Sabji Mandi, Ludhiana-141001. Date: 27.08.2024 Place: Ludhiana **Authorised Officer** 

### ARCOTECH LIMITED

CIN: L34300HR1981PLC012151 Regd. Off.: 181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari, Haryana 123501 Website: www.arcotech.in, Email: contact@arcotech.in, Tel: 0128-4264160

### NOTICE OF THE 43"ANNUAL GENERAL MEETING. RECORD DATE AND REMOTE E-VOTING

The Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of Arcotech Limited ("The Company") will be held on Wednesday, the 18th day of September, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) / other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice o AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there unde and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, and 09/2023 issued by th Ministry of Corporate Affairs (MCA Circular(s)) and Master Circular dated July 11, 2023 and circular number SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), without the physical presence of the Members at a common venue.

The electronic copy of Notice and Annual Report has been sent to all the members whose e-mail IDs an registered with the Depository Participant(s)/ Company. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report for the year 2023-24 has been completed on 27th August, 2024. The Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 and Notice of AGM are also available on the website of the Company at ww.arcotech.in,CDSL at www.evotingindia.com and the website of BSE at www.bseindia.com & NS at www.nseindia.com. The requirement of sending physical copies of Annual Report have been dispense vide MCA Circulars and SEBI circularsas mentioned above.

Notice is further given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made there unde and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Record Date has been fixed on Wednesday, 11t September, 2024 for the purpose of AGM.

Pursuant to Regulation 44 of the Listing Regulations and Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company is providing remote e-voting facility and e-voting during the AGM to the shareholders to enable them to exercis their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM. The deta instruction for remote e-voting and e-voting are provided in the notice of AGM. The Company has engage the services of CDSL for providing e-voting facility to Shareholders. Further, the Notice of the AGN containing details regarding user ID & Password and the instructions for e-voting have been already sent to the members. The e-voting platform will open for voting from 9.00 A.M. on Sunday, 15th September, 2024 and will close on 5:00 P.M. on Tuesday, 17th September, 2024. Shareholders of the Company, holding share either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-off date i.e Wednesday, 11th September, 202 may cast their vote electronically in respect of business to be transacted at the AGM. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any person who acquires shares of the Company and becomes a nember of the Company after the dispatch of the AGM Notice and hold shares as on Cut-Off date, ma obtain their User ID and Password for E-voting by sending request at mdpldc@yahoo.com of helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 022-23058738 or 022-23058542-43. Members, who casts their vote by remote e-voting prior to AGM, may also participate in meeting through VC / OAVM but they shall not be entitled to cast their Vote again at AGM. Process for Shareholders, whose E-mail Addresses are not registered with Depositories, for obtaining login credentials for E-voting for the Resolution Proposed i

For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanner copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy), AADHAR (self-attested scanned copy) by email to RTA at mdpldc@yahoo.com or to Company at secretarial@arcotech.in. For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no, with your respective Depositors

For Individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through

Any queries or grievances connected with e-voting may be addressed to Company on email is secretarial@arcotech.in. M/s. Saurabh Agrawal & Co., Company Secretaries, New Delhi has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process at AGM in a fair and transparen

For Arcotech Limited Place: New Delhi (Nidhi Jain Date: 27th August, 2024

# HIGH STREET FILATEX LTD

REGD OFFICE:B-17, IIND FLOOR, 22 GODAM INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302006, RAJ. Tel No: 0141-4025431

Web Site: www.highstreetfilatex.in | E-mail: highstreet.filatex@gmail.com CIN: L18101RJ1994PLC008386

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF HIGH STREET FILATEX LIMITED TO BE HELD THROUGH

("OAVM") AND REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of High Street Filatex Limited will be held on Friday, September 20, 2024 at 02:00 P.M. through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") in accordance with the Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and earlier circulars issued in this regards (collectively referred to as "MCA Circulars") by the Ministry of

VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Corporate Affairs ('MCA') and Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') without the physical presence of the members at a common venue. Members participating through VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). Electronic copies of the Notice of the 30th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 have been sent to all the members on Tuesday, August 27, 2024 whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s)/RTA. The requirements of sending physical copy of notice of AGM and

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the members to enable them to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM ('Remote E-voting') on all resolutions set forth in the Notice of 30th AGM, as well as e-voting during the AGM. For this purpose, the Company has signed an agreement with the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating e-voting facility.

Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars as

In this regard, the Members are hereby further informed that: (a) The remote e-voting period shall start at 10:00 A.M. on Tuesday, September 17, 2024 and end at

mentioned above.

Date: August 27, 2024

Place: Jaipur

- 05:00 P.M. on Thursday, September 19, 2024. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. on Thursday, September 19, 2024 and the same will be disabled by CDSL thereafter.
- (b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 13, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting and e-voting during AGM are contained in the Notice of the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 13, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote evoting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC/OVAM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The notice of the AGM and annual report are available on the website of the Company i.e. www.highstreetfilatex.in and website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. The notice of the AGM is also available on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.
- For the purpose of 30th AGM the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 14, 2024 to Friday, September 20, 2024 (both days
- Any query/grievances pertaining to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; call toll free no. 022-23058542/43.

For High Street Filatex Limited

Company Secretary and Compliance Officer

Bhavna Giamalani M. No.: ACS-56103

Date: 28.08.2024

Place: DELHI/NCR



#### QUICKTOUCH TECHNOLOGIES LIMITED CIN:L74900DL2013PLC329536

Regd. Off: Office No. 203, Second Floor, D- Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 E-mail: info@quicktouch.co.in, Website: www.quicktouch.co.in, Tel: +919667009283

### ADDENDUM CUM CORRIGENDUM TO THE 11TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE

This is in reference Notice dated 06thAugust, 2024 convening 11thAnnual General Meeting of Quicktouch Technologies Limited scheduled to be held on Wednesday, September 04, 2024 at 01:00 p.m. through Video Conferencing / Other Audit Visual Means (VC/OAVM).

In continuation of the Notice of the 11th Annual General Meeting Notice dispatched on July 13, 2024, the Company has issued Addendum cum Corrigendum to the Annual General Meeting Notice on August 27, 2024 to the members informing about addition of following ordinary/ special businesses (nos. 3A,6,7 &8)and correction in the Item No. 5 and its explanatory statement:

Sr. No. Type of Business		Type of Business Particulars		
зА	Ordinary	Appointment of Statutory Auditor		
6	Special	Appointment of Statutory Auditor to fill Casual Vacancy	Ordinary	
7		Appointment of Mr. Arvind Sharma (DIN: 10750603) as a Non-Executive, Non-Independent Director of the Company	Gunary	
8		Appointment of Mr. Krishnan (DIN: 07034128) as a Non-Executive, Non-Independent Director of the Company		

The Addendum cum Corrigendum is available on the web- site of the Company https://www.quicktouch.co.in/ investor-relations/general-meeting.php, on the websites of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia. com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Please note that there are no other modifications to the Annual General Meeting Notice and Addendum cum Corrigendum dispatched on August 27, 2024 shall be read in continuation of and in conjunction with the AGM Notice and cast their vote for the same either through remote e-voting facility or e-voting facility available during

Other than above there is no change in the information already provided to the shareholder in the notice published on August 13, 2024.

For Quicktouch Technologies Limited

Place: Delhi Kajal Goel Date: August 27, 2024 Company Secretary and Compliance Officer

## Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under sec tion 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to th Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in par ticular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. "The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

secured assets strail flot	be sold of transferred by III'L HI'L and no luttle step shall be taken by III'L HI'L		ecuieu as	35013.
Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s)	(İmmovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Duto o.	Date of Possession
Mr. Mukesh Yadav, Mrs. Sushma, Salasar Enterprises (Prospect No. IL10207621)	All that piece and parcel of Built Up Rhs Portion, Second Floor, Without Terrace/Roof Rights, Property Bearing No.6-7, Khasra No. 472/2, situated in the Extended Lal Dora/ Abadi of Village Burari, Delhi, 110084, Area Admeasuring (in Sq.Ft.): Property Type: Saleable_Area, Carpet_Area, Property Area: 630.00, 453.00	Twenty Six Lakh Forty Seven Thousand Six Hundred and	Notice	23-08- 2024
Mr. Mohit Sharma, Mrs. Alka Sharma (Prospect No. IL10198236)	All that piece and parcel of Flat No.SF-2, LHS with Roof, 2nd Floor, Plot No.A-137, Kh No.349, Rail Vihar, Hadbans, Village Sadullabad, Teh Loni, Ghaziabad, UP, 201102. Area Admeasuring (in Sq.Ft.): Property Type: Saleable_Area, Carpet_Area, Land_Area Property Area: 646.00, 432.00, 500.00	Sixteen Lakh Eighty Four	14-06- 2024	23-08- 2024
Mr. Deepak, Mrs. Anjali (Prospect No. IL10091032)	All that piece and parcel of Flat No.FF-2, First Floor, Front RHS without Roof MIG, Plot No. B-1/9, Block B, DLF Ankur Vihar, Loni Ghaziabad, UP, India, 201102. Area Admeasuring (in Sq.Ft.): Property Type: Saleable_Area, Carpet_Area. Property Area: 550.00, 465.00	Rs.17,40,438/- (Rupees Seventeen Lakh Forty Thousand Four Hundred and Thirty Eight Only)	09-05- 2024	23-08- 2024
Mr. Ramveer, Mrs. Mamta, M/s Riya Rajput Garments ( <b>Prospect</b> <b>No.IL10183463)</b>	All that piece and parcel of Flat No.SF-3, Second Floor, Front Side With Roof Right, on Plot No B-34, B-Block, Khasra No.218, Situiated at Rail Vihar, Village Sadullabad, Tehsil Loni, Dist. Ghaziabad, 201102. Area Admeasuring (in Sq.Ft.): Property Type: Saleable_Area, Carpet_Area Property Area: 324.00, 258.00	Nine Lakh Eighty Three	13-06- 2024	23-08- 2024
Mrs. Uma Gurung, Mr. Amit Gurung ( <b>Prospect No.</b> 902542)	All that piece and parcel of Second Floor (front side) without roof/terrace rights, portion of built up property/ Plot bearing no property F-69-B, part of Khasra 7/19, situated in the colony known as Om Vihar, F block, Village Matiala, Uttam Nagar, Delhi, India, 110059. Area Admeasuring (in Sq.Ft.): Property Type: Land_Area Property Area: 450.00.		14-06- 2024	23-08- 2024
Mr. Mubeen, Mr. Jameel Ahamad, Mrs. Chammo (Prospect No.772785)	All that piece and parcel of Flat No.G2, Ground Floor, On Plot No.B-1/115, DLF Dilshad Extn-II, Village-Brahampur, URF Bhopura Pargana Loni, Teh & Dist: Ghaziabad, UP, INDIA, 201006. Area Admeasuring (in Sq.Ft.): Property Type: Carpet_Area, Super_Built_Up Property Area: 315.00, 350.0.	Rs.11,74,720/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Four Thousand Seven Hundred and Twenty Only)	14-06- 2024	23-08- 2024
Mr. Anup Chakraborty, Mrs. Pori Nita Chakraborty, Somnath Express (Prospect No IL10253928)	All that piece and parcel of Property Bearing:- Dda Built Up Flat No-419, 4th Flr, Pocket B-2, Loknayak Puram, Bakkarwala, West Delhi, Delhi, India, 110041, Area Admeasuring (In Sq.Ft.): Property Type: Built_Up_Area, Carpet_Area, Property Area: 452.00, 384.00	Rs.20,39,182/- (Rupees Twenty Lakh Thirty Nine Thousand One Hundred and Eighty Two Only)	17-11- 2023	24-08- 2024
Mr. Suraj Singh Kushwah, Mrs. Yashoda <b>(Prospect No.</b> <b>IL10130980)</b>	All that piece and parcel of First Floor Without Roof/Terrace Rights Towards Back Side of Built Up Property Bearing Plot No. 105-A, Out Of Khasra No.8/14 AND 15, Gali No. 7, Block-A, Jain Park Uttam Nagar, Delhi,110059. Area Admeasuring (in Sq.Ft.): Property Type: Saleable_Area, Carpet_Area Property Area: 360.00, 273.00	Thousand Three Hundred	14-06- 2024	23-08- 2024
Mr. Shankar Kumar,	First Floor without roof/terrace rights towards back side LHS of Built-Up Property		13-06-	23-08-
Mr. Rohit Kumar,	bearing Plot No 57 out of Khasra No.20/8, Situated In revenue estate of Village	Twenty Three Lakh Sixty Thousand Nine Hundred	2024	2024
Mrs. Renu Devi, Mr. Shyam Prasad Sah	Matiala, Area Abadi known as Colony Block T-Extn, Gali no-3, Uttam Nagar, Jain	and Twenty One Only) for IL10070974 & Rs.65,718/-		
(Prospect No.	colony, Part-1, New Delhi, 110059. AREA ADMEASURING (IN Sq.Ft.): Property	(Rupees Sixty Five		
, .	Type: Saleable_Area, Carpet_Area. Property Area: 563.00, 478.00	Thousand Seven Hundred		
IL10070974,	7)	and Eighteen Only) for		

For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No.30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi / A-1C & A-1D, 2nd Floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 or Corporate Office: Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Place: Delhi, Date: 28-08-2024 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

### **IDFC FIRST Bank Limited** (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.

> Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile

Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co- borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates

No.	Account No.	Loan	name of borrowers and co-borrowers	Notice Date	per Section 13 (2) Notice
1	16289290	Home Loan	MOMIN HUSSAIN     SHREENA BEGUM	27.07.2024	17,47,309.66/-

PROPERTY ADDRESS: ALL THAT PIECE AND PARCEL OF SECOND FLOOR (WITHOUT ROOF RIGHTS) OUT OF FREE HOLD BUILT-UP PROPERTY BEARING NO. S-221/69-A, LAND AREAMEASURING 50 SQ.YDS., OUT OF RECT.NO.20, KILLA NO.14/1, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE: KHYALA, DELHI STATE, COLONY KNOWN AS VISHNU GARDEN, NEW DELHI-110018, AND BOUNDED AS:- EAST: GALI, WEST: OTHER PROPERTY, NORTH: PART OF PROPERTY SOUTH: PART OF PROPERTY

Sr	Loan	Type of	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2)	Outstanding amount as
No.	Account No.	Loan		Notice Date	per Section 13 (2) Notice
2	61288285	LOAN AGAINST PROPERTY	1.TANISHA ENTERPRISES, 3.NAVEEN AGARWAL C/O TANISHA ENTERPRISES 4.GANESH PRASAD AGARWAL, 5.CHARU AGARWAL	27.07.2024	1,03,68,462.50/-

PROPERTY ADDRESS: ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL PROPERTY ADMEASURING 88.76 SQ. MTR. PLOT NO. 6, CONSTRUCTED ON THE PRIVATE NO.24, NAGAR NIGAM AGRA NO. 25/13, SECOND BLOCK, JAWAHAR NAGAR, GANDHI NAGAR, HARIPARVAT WARD, AGRA, TOTAL COVERED AREA 170 SQ. MTR., DIST, AGRA, UTTAR PRADESH- 282002, AND. BOUNDED AS: EAST: EXIT AND ROAD 30 FT. WIDE, WEST: PROPERTY OF SURESH CHAND GARG CONSTRUCTED ON PLOT NO. 7, NORTH: PROPERTY OF HARISINGH, SOUTH: PART OF PROPERTY NO. 24 IN NAGAR NIGAM AGRA AS PROPERTY NO. 25/1A IN THE NAME OF ALOK KUMAR AGARWAL

Sr	Loan	Type of	Name of borrowers	Section 13 (2)	Outstanding amount as
No.	Account No.	Loan	and co-borrowers	Notice Date	per Section 13 (2) Notice
3	84200169	HOME LOAN	VIKAS KUMAR     ANITA VIKASKUMAR	06.08.2024	56,33,323.53/-

PROPERTY ADDRESS: ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE ENTIRE THIRD FLOOR WITH ROOF/TERRACE RIGHTS, PORTION OF BUILT UP PROPERTY BEARING NO. 291, IN BLOCK NO. A-5, (A-5/291), BUILT ON LAND MEASURING 70 SQ. MTRS., SITUATED AT PASCHIM VIHAR, NEW DELHI-110063, WITH THE FREE HOLD RIGHTS OF THE LAND UNDER THE SAID PROPERTY, WITH COMMON RIGHT TO USE STAIRS AND PASSAGE FROM GROUND TO TOP FLOOR, ALONGWITH PROPORTIONATE, UNDIVIDED, INDIVISIBLE AND IMPARTIBLE OWNERSHIP RIGHTS IN THE LAND, AND, BOUNDED AS: EAST: PLOT NO. 290, WEST: PLOT NO. 292, NORTH: SERVICE LANE 3 MTRS. WIDE, SOUTH: ROAD 5 MTRS. WIDE

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

> **Authorized Officer** IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

Place: Chennai

New Delhi

Date: 27th August, 2024

## कार्यालय ग्राम पंचायत कोट

विकासखंड गोपालपुर (स्थित सरकाघाट), जिला मंडी (हि.प्र.)

# निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोट, निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित करती है

# 1. कोटा स्टोन 2. बास्केटबाल पोल

निविदाएं ३ सितंबर २०२४ शाम ५ बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिएं और यह निविदाएं 5 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे खोली जायेंगी

> प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत कोट, जिला मंडी (हि.प्र.)

**NOVA IRON AND STEEL LIMITED** Regd. Office: Village-Dagori, Tehsil-Belha, District-Bilaspur (Chhattisgarh)-495224

Email: rai\_nisl2007@yahoo.com Website: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285206, 07752-285217 Notice of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 32<sup>™</sup>Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

held on Monday, 23<sup>rd</sup> September 2024 at 01:00 P.M. through Video Conferencing

(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM), in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under and relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular to transact the Business(es) set out in the Notice of Notice of AGM along with Annual Report will be sent through electronic mode to those Members whose email address are registered with the Company/Depositories/RTA by

email and will also be available on Company's website i.e. www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.Notice of the meeting will be sent to the shareholders by 28.08.2024. The instruction for participating through VC/OAVM and the process of e-voting including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not

registered their email addresses are provided in the AGM Notice available on Company website www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. Members who have not registered their email address are requested to send an email

request to rai\_nisl2007@gmail.com or admin@skylinerta.com along with scanned copy of request letter, self-attested PAN, share certificate and email address & mobile number to register their email address. Members holding shares on 17/09/2024 (cut-off date) are eligible to cast their vote

electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through remote e-voting provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and business may be transacted through such voting. The remote e-voting shall commence at 10:00 A.M. on 20/09/2024 and end at 5:00 P.M. on 22/09/2024 and thereafter will be disabled by CDSL.

For details relating to remote e-voting, refer to Notice of AGM. In case of query relating to E-voting refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to nelpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain losed from 17/09/2024 to 23/09/2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For Nova Iron and Steel Limited

> Dheeraj Kumar Company Secretary

INDIA RADIATORS LIMITED

### CIN: L27209TN1949PLC000963

Read, Off. 88, Mount Road, Guindy, Chennai 600 032, Tel: 044-40432210 Email: cs@indiaradiators.com Website: www.indiaradiators.com

### NOTICE OF 74" ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 74th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 20 September 2024 at 02:30 PM (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR Regulations, 2015) read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 2023 ('SEBI Circular') and General Circular No.09/2023 dated 25.09.2023. issued by MCA ('MCA Circular') and other circulars referred therein to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Annual Report for the year 2023-24 together with the Notice of the AGM has been sent on 27" August, 2024 only by electronic means to those shareholders who have registered their e-mail ids with the Company/RTA or as the case may be, the Depository Participants. These are also made available in the websites of the Company and the Stock Exchange viz., https://www.indiaradiators.com and www.bseindia.com

### FACILITY TO PARTICIPATE IN THE AGM THROUGH VC/OAVM Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM

through the CDSL e-Voting system. Detailed guidance for joining the meeting is available in the Notice of the Meeting. The window for joining the meeting would be available from 2:15 PM on the AGM day.

In terms of the relevant Circulars of the Ministry of Corporate Affairs there is no provision for appointment of proxies for the meeting.

## **BOOK CLOSURE**

**IDFC FIRST** 

Place: New Delhi

Dated: 27.08.2024

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 14.09.2024 to Friday, 20.09.2024 (both the days inclusive).

## FACILITY FOR REMOTE E-VOTING

Pursuant to Section 108 of the companies Act, 2013, the relevant Rules and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has entered in to an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate the Members to exercise their right to vote at the meeting through remote e-voting. The detailed process for participating in AGM through VC/OAVM and voting at the meeting/remote e-voting is available in the notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on Friday 13" September 2024 being the Cut-Off Date and whose names are entered as Members in the Register of Members on that date alone shall be entitled to exercise the voting rights electronically.

Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of the notice and hold shares as on the Cut-off date may contact the RTA / CDSL to obtain the login details if they desire to participate through VC/OAVM and to avail remote e-voting facility.

The remote e-voting period commences on Tuesday,17" September 2024 at 9.00 AM and will end on Thursday, the 19th September 2024 at 5.00 PM during which period the Members can cast their vote electronically. The remote E-voting module shall be disabled by CDSL and will not be available thereafter. Members who did not avail remote E-voting facility will be provided an opportunity to vote electronically at the meeting. Members who have exercised remote e-voting are entitled to attend the meeting but shall not be permitted to vote. The results of the E-voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be intimated to the Stock exchange (BSE) and simultaneously be posted on the Company's Website.

Members desirous of speaking at the meeting may register themselves as a speaker by sending their request latest by Tuesday, 17th September 2024 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number to cs@indiaradiators.com. It may be noted that there will be no option for spot registration and so only those shareholders who have registered through the above process will be able to speak at the meeting.

Members who do not wish to speak during the AGM but need clarifications on the items to be transacted at the meeting may send their queries by e-mail to cs@indiaradiators.com on or before Tuesday, 17th September 2024, mentioning their names, demat account number/folio number. E-mail id and mobile number. These queries will be replied by the Company suitably by email.

CONTACT DETAILS FOR FURTHER INFORMATION If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for e-votingmay be addressed to Mr.Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no - 1800 21 09911.

For India Radiators Limited E N Rangaswami

Whole-Time Director DIN: 06463753

financialexp.epapr.in